



Abhisek



ankita

Model: Horoscope-Matching

Order No: 121645401

पुल्लिंग :	लिंग	: स्त्रीलिंग
05/12/1997 :	जन्म तिथि	: 8-09/11/1998
शुक्रवार :	दिन	: रवि-सोमवार
घंटे 15:45:00 :	जन्म समय	: 01:15:00 घंटे
घटी 21:30:46 :	जन्म समय(घटी)	: 46:13:59 घटी
India :	देश	: India
Hamirpur :	स्थान	: Una
31:38:00 उत्तर :	अक्षांश	: 31:28:00 उत्तर
76:36:00 पूर्व :	रेखांश	: 76:19:00 पूर्व
82:30:00 पूर्व :	मध्य रेखांश	: 82:30:00 पूर्व
घंटे -00:23:36 :	स्थानिक संस्कार	: -00:24:44 घंटे
घंटे 00:00:00 :	ग्रीष्म संस्कार	: 00:00:00 घंटे
07:08:41 :	सूर्योदय	: 06:46:16
17:19:42 :	सूर्यास्त	: 17:30:30
23:49:36 :	चित्रपक्षीय अयनांश	: 23:50:17
मेष :	लग्न	: सिंह
मंगल :	लग्न लग्नाधिपति	: सूर्य
मकर :	राशि	: मिथुन
शनि :	राशि-स्वामी	: बुध
धनिष्ठा :	नक्षत्र	: पुनर्वसु
मंगल :	नक्षत्र स्वामी	: गुरु
1 :	चरण	: 2
व्याघात :	योग	: साध्य
तैतिल :	करण	: गर
गा-गगन :	जन्म नामाक्षर	: को-कोमल
धनु :	सूर्य राशि(पाश्चात्य)	: वृश्चिक
वैश्य :	वर्ण	: शूद्र
जलचर :	वश्य	: मानव
सिंह :	योनि	: मार्जार
राक्षस :	गण	: देव
मध्य :	नाड़ी	: आद्य
मार्जार :	वर्ग	: मार्जार

ग्रह अंश एवं विंशोत्तरी

विंशोत्तरी
मंगल 5वर्ष 8मा 7दि
गुरु

13/08/2021

13/08/2037

गुरु	01/10/2023
शनि	13/04/2026
बुध	19/07/2028
केतु	25/06/2029
शुक्र	24/02/2032
सूर्य	12/12/2032
चन्द्र	13/04/2034
मंगल	20/03/2035
राहु	13/08/2037

अंश

24:14:10
19:29:18
25:50:01
26:10:36
09:07:16
23:25:50
02:13:42
19:49:04
21:18:07
21:18:07
12:01:14
04:14:07
11:56:55

मेष
वृश्चि
मक
धनु
धनु
मक
मक
मीन व
सिंह व
कुंभ व
मक
मक
मक
वृश्चि

लग्न
सूर्य
चंद्र
मंगल
बुध
गुरु व
शुक्र
शनि व
राहु व
केतु व
हर्ष
नेप
प्लूटो

सिंह
तुला
मिथु
सिंह
वृश्चि
कुंभ
तुला
मेष
सिंह
कुंभ
कुंभ
मक
मक
वृश्चि

अंश

10:44:42
22:21:30
25:34:07
25:30:09
14:59:21
24:21:41
24:47:41
05:04:12
04:01:09
04:01:09
15:09:31
05:46:06
13:15:10

विंशोत्तरी
गुरु 9वर्ष 3मा 24दि
शनि

04/03/2008

05/03/2027

शनि	08/03/2011
बुध	15/11/2013
केतु	25/12/2014
शुक्र	23/02/2018
सूर्य	05/02/2019
चन्द्र	06/09/2020
मंगल	15/10/2021
राहु	21/08/2024
गुरु	05/03/2027


व - वकी स - स्थिर

अ - अस्त पू - पूर्ण अस्त


राहु : स्पष्ट

23:49:36 चित्रपक्षीय अयनांश 23:50:17

लग्न-चलित




लग्न-चलित



अष्टकूट गुण सारिणी

कूट	वर	कन्या	अंक	प्राप्त	दोष	क्षेत्र
वर्ण	वैश्य	शूद्र	1	1.00	--	जातीय कर्म
वश्य	जलचर	मानव	2	1.00	--	स्वभाव
तारा	मित्र	विपत	3	1.50	--	भाग्य
योनि	सिंह	मार्जार	4	2.00	--	यौन विचार
मैत्री	शनि	बुध	5	4.00	--	आपसी सम्बन्ध
गण	राक्षस	देव	6	1.00	--	सामाजिकता
भकूट	मकर	मिथुन	7	0.00	हाँ	जीवन शैली
नाडी	मध्य	आद्य	8	8.00	--	स्वास्थ्य/संतान
कुल :			36	18.50		

कुल : 18.5 / 36



अष्टकूट मिलान

भकूट दोष प्रभावहीन है क्योंकि दोनों के राशि स्वामियों में मित्रता है।

Abhisek का वर्ग मार्जार है तथा ankita का वर्ग मार्जार है। इन दोनों वर्गों में परस्पर सम है।

अष्टकूट मिलान के अनुसार Abhisek और ankita का मिलान औसत है।

मंगलीक दोष मिलान

Abhisek मंगलीक नहीं है क्योंकि मंगल लग्न कुण्डली में नवम् भाव में स्थित है।

ankita मंगलीक है क्योंकि मंगल लग्न कुण्डली में प्रथम भाव में स्थित है।

कुजजीवो समायुक्तो युक्तो व कुजचन्द्रमा । न मंगली मंगल राहु योग ।

यदि मंगल-गुरु या मंगल-राहु या मंगल-चंद्र एक राशि में हों तो मंगली दोष भंग हो जाता है।

क्योंकि मंगल एवं राहु ankita कि कुण्डली में एक राशि में हैं अतः मंगलीक दोष प्रभावहीन हो जाता है।

Abhisek तथा ankita में मंगलीक मिलान ठीक है।

निष्कर्ष

अष्टकूट एवं मंगलीक दोष न होने के कारण दोनों का मिलान उत्तम है।

अष्टकूट फलादेश

वर्ण

Abhisek का वर्ण वैश्य है तथा ankita का वर्ण शूद्र है। इसमें ankita का वर्ण Abhisek के वर्ण से नीचा है अतः यह मिलान अति उत्तम मिलान है। जिसके फलस्वरूप ankita अति आज्ञाकारी, सहायता करने वाली तथा बिना किसी शिकायत के पूरे परिवार की सेवा-सुश्रुषा एवं देखभाल करने वाली होगी। साथ ही हर किसी की सेवा के लिए ankita हमेशा तत्पर रहेगी। बिना उचित कारण के वह किसी के साथ तर्क-वितर्क अथवा झगड़ा नहीं करेगी।

वश्य

Abhisek का वश्य जलचर है एवं ankita का वश्य द्विपद अर्थात् मनुष्य है। जिसके कारण यह मिलान मिलान अच्छा मिलान नहीं है। जलचर कभी भी मनुष्य के ऊपर नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकता। इसके विपरीत, मनुष्य या तो जलचरों पर नियंत्रण कर लेता है अथवा उसे समाप्त कर देता है अथवा उसका भक्षण कर लेता है अथवा उससे दूर भागता है। अतः यदि इन दोनों बीच विवाह सम्पन्न होता है तो यह अनुकूल नहीं रहेगा। इस स्थिति में ankita अति हावी होती रहेगी तथा हमेशा अपने पति को गुलाम समझती रहेगी तथा चाहेगी कि Abhisek उसकी आज्ञा का पालन करे। इससे घर की शांति भंग होगी तथा प्रगति एवं समृद्धि पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

तारा

Abhisek की तारा मित्र तथा ankita की तारा विपत है। ankita की तारा विपत होने के कारण यह मिलान औसत मिलान ही है। यह मिलान Abhisek एवं उसके परिवार के लिए दुर्भाग्य एवं नुकसान का कारण बन सकता है। परन्तु कड़े एवं लगातार प्रयासों के बाद परिणाम सुखदायी हो सकता है। संभव है कि ankita का रुख सहयोगात्मक नहीं हो तथा आपसी विश्वास, प्रेम एवं समझ की कमी बनी रहे। अक्सर पति एवं पत्नी के बीच संघर्ष एवं लड़ाई-झगड़े रह सकते हैं तथा बच्चे भी इसका गलत फायदा उठावेंगे। जिसके कारण संभव है कि बच्चे योग्य एवं आज्ञाकारी नहीं हों।

योनि

Abhisek की योनि सिंह है तथा ankita की योनि मार्जार है। अर्थात् दोनों की योनि समान नहीं हैं और इनके बीच उदासीनता का अर्थात् सम संबंध है। अतः यह मिलान औसत मिलान कहलायेगा। जिसके कारण दोनों के बीच आपसी समझबूझ का अभाव रहेगा तथा जीवन में सहयोग की भावना एवं प्रेम का अभाव भी बना रहेगा। दोनों के बीच अक्सर लड़ाई झगड़े होंगे तथा परिवार में तनाव तथा अशांति का भाव भी रह सकता है। साथ ही दोनों के बीच अविश्वास की भावना भी बनी रहेगी। दोनों एक दूसरे को संदेह की भावना से देखेंगे जिससे दोनों के बीच कटुता का भाव भी पैदा होगा। दोनों के बीच आपसी समझ की कमी भी रहेगी अतः दोनों के बीच वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं। संभव है कि दोनों के बीच अवैध संबंध को

लेकर संदेह की भावना बन जाये जिसके कारण पारिवारिक तनाव भी हो सकता है। बात-बात में दोनों के बीच में कभी कभी तर्क-वितर्क की जगह कुतर्क भी हो सकता है। वर या कन्या में से कोई भी विश्वासघात भी कर सकता है। जिसके कारण दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। इनको अपने जीवन में अत्याधिक संघर्ष के उपरांत ही सफलता प्राप्त होगी अतः कठिन परिश्रम की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बावजूद इनको अपने जीवन में सफलता कम ही मिलेगी। अर्थात् मेहनत अधिक और परिणाम कम ही मिलने की संभावना है। जिसके कारण दोनों को समय-समय पर मानसिक पीड़ा होती रहेगी। पारिवारिक आय औसत ही रहेगी। अर्थात् धनागम के स्रोत कम ही रहेंगे। पति-पत्नी के बीच विचारों में भिन्नता होगी एवं जीवन में उतार-चढ़ाव बने रहेंगे। दोनों लापरवाह प्रवृत्ति के होंगे किंतु परिवार के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहेंगे। दोनों के बीच रोमांस एवं सेक्स में रुचि की कमी भी रह सकती है। कई बार वाद-विवाद में तर्क-वितर्क होते रहेंगे। जिसके कारण समय-समय पर धन हानि भी हो सकती है। आपस में प्रेम एवं सौहार्द की भी कमी रहेगी। इस प्रकार इनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा न रहकर निम्न सामान्य स्तर का ही होगा।

मैत्री

अष्टकूट मिलान में ग्रह मैत्री कूट में Abhisek का राशि स्वामी ankita के राशि स्वामी से मित्र का संबंध रखता है। जबकि ankita का राशि स्वामी Abhisek के राशि स्वामी के साथ सम का संबंध रखता है। अतः यह मिलान ग्रह मैत्री के विचार से अति उत्तम मिलान है। ज्योतिष की दृष्टि से यदि एक साथी के राशि स्वामी दूसरे साथी के लिए मित्र हो किंतु दूसरे साथी के राशि स्वामी अपने साथी के राशि स्वामी को सम मानते हों तो इसे भी उत्तम मिलान माना जाता है। ऐसी स्थिति में वैवाहिक सुख, शांति, खुशहाली, प्रेम एवं समृद्धि से युक्त जीवन होता है। अतः दम्पति के बीच पारस्परिक समझ, विश्वास एवं सहयोग की भावना बनी रहेगी। दोनों अपने घरेलू अथवा सामाजिक दायित्वों का निर्वहन साथ मिलकर करते रहेंगे तथा सभी की प्रशंसा का पात्र बनेंगे।

गण

Abhisek का गण राक्षस तथा ankita का गण देव है। अर्थात् ankita का गण Abhisek के गण से श्रेष्ठ है। अतः यह मिलान अच्छा मिलान नहीं है। जिसके कारण Abhisek निर्दयी, कठोर, निष्ठुर एवं झगड़ालू हो सकते हैं। साथ ही Abhisek का ankita के साथ क्रूर व्यवहार करने की संभावना बनी रह सकती है। पति-पत्नी, अक्सर कुत्ते-बिल्लियों की भांति झगड़ा कर सकते हैं एवं परिवार में अक्सर अशांति का माहौल बना रहेगा। ankita हमेशा हर कदम पर समझौता करने की कोशिश करती रहेगी ताकि दोनों का संबंध बना रहे।

भकूट

Abhisek से ankita की राशि षष्ठम भाव में स्थित है तथा ankita से Abhisek की राशि अष्टम भाव में स्थित है। जिसके कारण यह मिलान बिल्कुल अच्छा मिलान नहीं है। क्योंकि इसमें षडाष्टक दोष लग रहा है। जिसके कारण Abhisek लाइलाज बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं

तथा अक्सर उनके जलने अथवा दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना बनी रहेगी। ankita को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं तथा परिवार के सदस्यों से वैमनस्य होने की संभावना भी रहेगी। पति-पत्नी के बीच वैचारिक मतभेद रह सकते हैं तथा अक्सर लड़ाई-झगड़े होते रहेंगे। दोनों के बीच तनावपूर्ण स्थिति पूरे परिवार के लिए समस्या एवं पीड़ा बन जायेगी। मुकदमेबाजी होने से अलगाव एवं तलाक की संभावना भी रहेगी।

नाड़ी

Abhisek की नाड़ी मध्य है तथा ankita की नाड़ी आद्य है। अर्थात दोनों की नाड़ी समान नहीं है, जो कि अष्टकूट मिलान की दृष्टि से दोष मुक्त है। अर्थात यह मिलान अति उत्तम मिलान है। आद्य एवं मध्य नाड़ी का समन्वय अति उत्तम होता है क्योंकि यह जीवनी शक्ति को संतुलित करता है। तीनों जीवनी शक्तियों वात, पित्त एवं कफ का संतुलन जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। अतः आपकी संतान उत्तम स्वास्थ्य, जनन क्षमता एवं स्वस्थ तथा बुद्धिमान संतान होंगी।



मेलापक फलित

स्वभाव

Abhisek की जन्म राशि भूमि तत्व युक्त मकर तथा ankita की राशि वायु तत्व युक्त मिथुन है। भूमि एवं वायु तत्व में नैसर्गिक विषमताओं के कारण Abhisek और ankita के मध्य स्वभावगत असमानताएं होगी तथा संबंध भी विशेष मधुर नहीं रहेंगे। अतः यह मिलान विशेष अच्छा नहीं रहेगा।

Abhisek की राशि का स्वामी शनि तथा ankita की राशि का स्वामी बुध परस्पर सम एवं मित्र राशियों में स्थित है। अतः सुखी वैवाहिक जीवन के लिए यह स्थिति अनुकूल रहेगी। इसके प्रभाव से Abhisek और ankita के मध्य प्रेम सहयोग तथा सहानुभूति का भाव होगा तथा एक दूसरे को सुख दुख में पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। साथ ही परस्पर गुणों की मुक्त भाव से प्रशंसा करेंगे एवं कमियों की उपेक्षा करेंगे। फलतः दाम्पत्य संबंधों में मधुरता रहेगी तथा वैवाहिक जीवन सुख एवं प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत होगा।

Abhisek और ankita की राशियां परस्पर षष्ठ एवं अष्टम भाव में पड़ती है। शास्त्रानुसार यह भकूट दोष माना जाता है। इसके प्रभाव से उपरोक्त शुभ प्रभावों में न्यूनता आएगी तथा परस्पर संबंधों में तनाव तथा कटुता के भाव की उत्पत्ति होगी। साथ ही एक दूसरे के गुणों की अपेक्षा कमियों पर विशेष ध्यान देने से वैमनस्य एवं विरोध भी बढ़ेगा अतः यदि Abhisek और ankita सामंजस्य की प्रवृत्ति का अनुसरण करें तो इसमें किंचित शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है।

Abhisek का वश्य जलचर तथा ankita का वश्य मानव है। जलचर तथा मानव में नैसर्गिक विषमता होने के कारण इनकी अभिरुचियों में असमानता होगी तथा शारीरिक मानसिक एवं भावनात्मक स्तर पर भी विषमता रहेगी। साथ ही काम संबंधों में भी एक दूसरे को प्रसन्न तथा सन्तुष्ट करने में असमर्थ रहेंगे फलतः वैवाहिक जीवन में कटुता का भाव रहेगा।

Abhisek का वर्ण वैश्य तथा ankita का वर्ण शूद्र है। अतः Abhisek की प्रवृत्ति धनार्जन संबंधी कार्यों में रहेगी तथा धन को विशेष महत्व देंगे। परन्तु ankita परिश्रम तथा ईमानदारी से अपने कार्य कलापों को सम्पन्न करने में तत्पर रहेंगी। अतः कार्य क्षेत्र की स्थिति अनुकूल रहेगी।

धन

Abhisek और ankita दोनों की तारा परस्पर सम है। अतः आर्थिक स्थिति पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं होगा तथा सामान्य गति से धन एवं लाभ अर्जित करने में दोनों तत्पर रहेंगे। भकूट भी सम ही रहेगा जिससे उनके लाभमार्ग स्वबुद्धिमता एवं परिश्रम से प्रशस्त रहेंगे। मंगल का भी उनकी आर्थिक स्थिति पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। इस प्रकार उनके अर्थिक स्तर पर कोई विशेष नाटकीय परिवर्तन की संभावना नहीं होगी परन्तु सामान्य जीवन धनऐश्वर्य से युक्त होकर व्यतीत होगा।

इसके साथ ही कोई विशेष या अचानक लाभ के योगों में भी न्यूनता होगी तथा आर्थिक स्तर अपने ही अनुकूल रहेगा जिससे वे आर्थिक रूप से सन्तुष्टि की अनुभूति करेंगे।

स्वास्थ्य

Abhisek की नाड़ी मध्य तथा ankita की नाड़ी आद्य है। अतः अलग अलग नाड़ियों में उत्पन्न होने के कारण नाड़ी दोष से ये मुक्त रहेंगे तथा इसका कोई दुष्प्रभाव इन पर नहीं पड़ेगा परन्तु मंगल की स्थिति प्रतिकूल रहेगी जिसके प्रभाव से Abhisek रक्त तथा पित विकार से परेशानी की अनुभूति करेंगे। साथ ही हृदय रोग संबंधी परेशानी भी होगी एवं रतिक्रिया संबंधी निष्क्रियता के भाव की भी उत्पत्ति की संभावना रहेगी जिससे दाम्पत्य जीवन में कलह तथा अशांति की संभावना उत्पन्न होगी। अतः उपरोक्त अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए Abhisek को हनुमान जी की नियमित पूजा करनी चाहिए तथा मंगलवार का उपवास करना चाहिए।

संतान

संतति प्राप्ति के दृष्टिकोण से Abhisek और ankita का मिलान शुभ रहेगा। इससे इनको संतति की प्राप्ति यथा समय होगी तथा इसमें किसी भी प्रकार का अनावश्यक विलम्ब नहीं होगा। साथ ही बच्चों के जन्म में अंतर भी अधिक नहीं होगा। इससे Abhisek और ankita बच्चों को उचित पालन पोषण करने में समर्थ रहेंगे। इसके साथ ही कन्या संतति की अपेक्षा पुत्र संतति की बहुलता रहेगी।

ankita को प्रसव के समय किसी विशेष समस्या या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा तथा सामान्य रूप से बच्चों का जन्म होगा। साथ ही किसी भी प्रकार की असमय प्रसूति चिकित्सा का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। अतः इसके बारे में ankita को किसी भी प्रकार की चिन्ता नहीं करनी चाहिए। वह सुंदर स्वस्थ एवं आकर्षक बच्चों को जन्म देंगी तथा स्वयं भी पूर्ण रूपेण स्वस्थ तथा प्रसन्नता की अनुभूति करेंगी।

Abhisek और ankita की संतति अपने क्षेत्र में अपने सदगुणों तथा बुद्धिमता के लिए जाने जाएंगे। साथ ही उनमें व्यवहार कुशलता का भाव भी विद्यमान होगा जिससे अन्य लोग उनसे प्रभावित रहेंगे। लेकिन माता से उनका विशिष्ट लगाव रहेगा तथा पिता की अपेक्षा माता के विशेष आज्ञाकारी रहेंगे इस प्रकार Abhisek और ankita का पारिवारिक जीवन सुख शांति एवं आनंद पूर्वक व्यतीत होगा। साथ ही बच्चों को माता पिता तथा माता पिता को बच्चों पर गर्व रहेगा।

ससुराल-सुश्री

ankita के अपनी सास से संबंधों में अनुकूलता तथा मधुरता रहेगी तथा उनकी तरफ से ankita किसी भी अनावश्यक समस्या या असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। ankita के हृदय में उनके प्रति सेवा भाव रहेगा तथा अपनी सेवा के द्वारा उन्हें प्रसन्न तथा सन्तुष्ट रखने के लिए प्रयत्नशील रहेंगी। यद्यपि यदा कदा इनके मध्य मतभेद या विवाद भी होंगे लेकिन यह अल्प समय के लिए होगा तथा सामान्यतया संबंधों में मधुरता बनी रहेगी।

उनके ससुर से ankita को विशेष स्नेह सम्मान तथा अनुकूलता प्राप्त नहीं होगी तथा के द्वारा ankita को समय समय पर समस्याओं तथा व्यवधानों का सामना करना पड़ेगा लेकिन देवर एवं ननदों से ankita के अत्यंत ही स्नेह एवं सौहार्द पूर्ण संबंध रहेंगे तथा उनसे इन्हें पूर्ण सम्मान तथा सहयोग मिलेगा। साथ ही परस्पर संबंधों में मित्रता का भाव रहेगा तथा आपसी समस्याओं तथा सुख दुख में एक दूसरे को अपना सहयोग प्रदान करते रहेंगे। इस प्रकार ankita के सास ससुर का दृष्टिकोण सामान्यतया अनुकूल नहीं रहेगा।

ससुराल-श्री

Abhisek के सास से सामान्यतया मधुर संबंध रहेंगे तथा उनके प्रति मन में पूर्ण श्रद्धा तथा सेवा की भावना विद्यमान रहेगी। साथ ही सास को अपनी माता के समान आदरणीया समझेंगे। वह सपत्नीक अवसरनुकूल ससुराल में उनसे मिलने भी जाया करेंगे तथा अपने मन में कभी श्रेष्ठता की भावना नहीं लाएंगे जिससे संबंध अनुकूल रहेंगे।

ससुर के साथ में Abhisek के संबंध विशेष अनुकूल नहीं रहेंगे तथा आयु में काफी अंतर होने के कारण उनके आपस में मतभेद होंगे लेकिन यदि दोनों परस्पर सामंजस्य की प्रवृत्ति एवं बुद्धिमता से व्यवहार करें तो संबंधों में मधुरता का भाव आ सकता है। साथ ही साले एवं सालियों से भी संबंधों में अनुकूलता रहेगी तथा एक दूसरे के प्रति पूर्ण सम्मान स्नेह तथा सहयोग का भाव रहेगा तथा मित्रता की भी भावना रहेगी जिससे एक दूसरे को समझने में सफल रहेंगे।

इस प्रकार ससुराल का दृष्टिकोण Abhisek के प्रति सकारात्मक रहेगा तथा Abhisek भी मधुर संबंधों को बनाने में नित्य यत्नशील रहेंगे।